



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 481]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 1981/कार्तिक 1, 1903

№ 481]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23 1981/KARTIKA 1, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 23 अक्टूबर 1981

का० आ० 767(अ) —मैसर्स मोहिनी मिल्स लिमिटेड, बेलघरिया, पश्चिमी बंगाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) एक अनुसूचित उद्योग अर्थात् सूती टेक्सटाइल उद्योग में लगा हुआ है

और उक्त उद्योग के वर्ज में दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य से, उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्बन्ध में केन्द्रिय सरकार का यह समाधान हो गया है कि वह कम से कम तीन मास के अवधि के लिए बंद कर दिया गया है और ऐसा बन्दी सम्बद्ध अनुसूची उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है तथा उक्त औद्योगिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति और उक्त औद्योगिक उपक्रम के संपत्ति तथा मशीनरी की स्थिति ऐसी है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम को पुनर्चालू किया जाना संभव है और इस प्रकार पुनर्चालू किया जाना सार्वजनिक हित में आवश्यक है

और उक्त औद्योगिक उपक्रम का एक सूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् कारण बताओ सूचना कहा गया है) जारी की जा रही है जिसमें उक्त औद्योगिक उपक्रम द्वारा कारण बताओ सूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन का अवधि के भीतर कारण बताया जाने का अपेक्षा की गई है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के सम्पूर्ण उपक्रम का उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्रबन्ध ग्रहण क्यों न कर लिया जाये,

और सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि कारण बताओ सूचना के उत्तर की प्राप्ति और उस पर विचार किये जाने सम्बन्धी विचार

870G1/81

के लिखित रहने तक उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का तुरन्त प्रबंध ग्रहण कर लिया जाये

अतः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) का धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करता हुआ, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सूय गिंग विल्डि 'मस्त्रव' गांधी मार्ग, नई दिल्ली को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) निम्नलिखित निबंधना और शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करता है यथा—

- (1) प्राधिकृत व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा
- (2) प्राधिकृत व्यक्ति इस आदेश की शर्तों में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली सूचना की प्राप्ति के लिए पद धारण करेगा
- (3) केन्द्रीय सरकार यदि बंद करना आवश्यक समझती है इससे पूर्व भी प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी।

यह आदेश राजपत्र में प्रकाश की तारीख से ही प्रारम्भ होने वाली तीस दिन की अवधि के लिए प्रभाव होगा।

[का० सं० 3/5/81-सी० यू० एस०]
सी० के० मोदी, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 23rd October, 1981

S.O. 767(E).—Whereas Messrs Mohini Mills Ltd., Belgharia, West Bengal (hereinafter referred to as the said

(1343)

industrial undertaking) is engaged in a scheduled industry, namely, the cotton textiles industry;

And whereas from the documentary and other evidence in its possession, the Central Government is satisfied, in relation to the said industrial undertaking that it has been closed for a period of not less than three months and such closure is prejudicial to the concerned scheduled industry and that the financial condition of the said industrial undertaking and the condition of the plant and machinery of the said industrial undertaking are such that it is possible to restart the said industrial undertaking and that such restarting is necessary in the interests of the general public;

And whereas a notice (hereinafter referred to as the show cause notice) is being issued to the said industrial undertaking for requiring the said industrial undertaking to show cause, within a period of fifteen days from the date of receipt of the show cause notice by the said industrial undertaking, why the management of the whole of the said industrial undertaking should not be taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);

And whereas it is necessary in the interests of the general public to take over immediately the management of the whole of the said industrial undertaking pending the issue of, and the receipt of the reply to, the show cause notice and the consideration thereof;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the said Act, the Central Government hereby authorises the National Textile Corporation Limited, Surya Kiran Building, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi (hereinafter referred to as the authorised person), to take over the management of the whole of the said industrial undertaking, subject to the following terms and conditions, namely :—

- (i) the authorised person shall comply with all the directions issued from time to time by the Central Government;
- (ii) the authorised person shall hold office for a period of thirty days commencing on and from the date of publication of this Order in the Official Gazette;
- (iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier if it considers it necessary to do so.

2. This order shall have effect for a period of thirty days commencing on and from the date of its publication in the Official Gazette.

[File No. 3/5/81-CUS]
C. K. MODI, Jt. Secy.